

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11—अप्रैल 17, 2015 (चैत्र 21, 1937)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11— APRIL 17, 2015 (CHAITRA 21, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2015

सं. डीपीपर्स.12015/0071/A-20011/1/84—श्री दिनेश कुमार सक्सेना, उपविधि सलाहकार, के. अ. ब्यूरो, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 28.02.2015 के अपराहन से उपविधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मार्च 2015

सं. डीएफएसएस/04/82/2012/3257—राष्ट्रपति, श्री संजीत कुमार को न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अधीन केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकता में वेतन बैंड-3 रुपये रु. 15,600—39,100/- व ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड-II (विस्फोटक) (नमनीय पूरक स्कीम में वैज्ञानिक-बी. के नाम से पुनः पदनामित) के पद पर दिनांक दिसम्बर 16, 2014 (अपराहन) से नियुक्त करते हैं।

ए. के. गंजू
निरीक्षक-सह-मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 मार्च 2015

संख्या-ओ.दो.4014/2015-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० कूहू चटर्जी, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100. ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 12.03.2015 (अपराह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 मार्च 2015

सं० ई-16015/390/एनएसजी/2011/कार्मिक-2/375—एनएसजी में प्रतिनियुक्ति आधार पर 05 (पांच) वर्ष के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केओसुब के निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंट द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा व एनएसजी में पदभार ग्रहण कर लिया गया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/पद (सर्वश्री)	केओसुब इकाई का नाम व पदभार छोड़ने की तिथि	एनएसजी में पदभार ग्रहण
01	एलन जोजारलियन स०कमा०/कार्य	28/12/14 (अपराह्न) केओसुब इकाई, गोआ ओर माईन	27/01/15 टीम कमांडर
02	थाचुंग हनुंग स०कमा०/कार्य	07/11/14 (अपराह्न) केओसुब इकाई, आई जी आई एयरपोर्ट, दिल्ली	18/11/14(पु) टीम कमांडर
03	सौरव जोशी स०कमा०/कार्य	16/01/15 (अपराह्न) केओसुब इकाई, सी०पी०सी०एल चेन्नै	02/02/15(पु) टीम कमांडर
04	शेकर रमोला स०कमा०/कार्य	28/02/15 (अपराह्न) केओसुब इकाई, बीम टेन्सा मैन्स	11/03/15(पु) टीम कमांडर

ह./अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपूर, दिनांक 23 मार्च 2015

संख्या. ए: 19011/651/2014-स्था. ए.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. दिलीप रंजन कानुनगो, को भारतीय खान ब्यूरो. नागपूर में दिनांक 13.03.2015 (पूर्वाह्न) से अधिक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर नियुक्ती की जाती है।

नोएल डहॅगा,
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 27 मार्च 2015

संख्या. ए: 19011/382/2014 स्था. ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. एम. के. सोमानी, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी को भारतीय खान ब्यूरो. नागपूर में दिनांक 18.12.2014 (अपराह्न) से क्षेत्रिय खनन भूविज्ञानी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एन. डहॅगा,
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक

सं. /ए-32013/1-भूवैज्ञानिक/2014-15/19ए—राष्ट्रपति जी विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर श्री ए. सी. बनसोड, सहायक भूवैज्ञानिक को इसी विभाग में पदोन्नति पर वर्ष 2014-2015 के लिए भूवैज्ञानिक के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/-) में नियमानुसार 01.04.2004 से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. एम. मिश्रा
उप निदेशक (कार्मिक/प्रशासन)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक

शुद्धिपत्र

सं. /ए-32013/1-भूवैज्ञानिक/2014-15/19ए—कार्यालय अधिसूचना सं. 4053एसपी से 4056एसपी तक/ए-32013/1-भूवैज्ञानिक/2014-15/19ए, दिनांक 24 जून, 2014 के क्रम में, श्री ए. सी. बैनसोड का सहायक भूवैज्ञानिक से भूवैज्ञानिक में पदोन्नति की तिथि को 01.04.2004 के स्थान पर 01.04.2014 पढ़ा जाए। अन्य शर्तें और निबंधन अपरिवर्तित हैं।

ए. के. मण्डल
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 25 मार्च 2015

शुद्धिपत्र

पीडी/8(6)/2013/भर्ती-IV/3275—इस अनुसंधान केंद्र के दिनांक 29 दिसंबर, 2014 के समसंख्यक राजपत्रित अधिसूचना संख्या 170297 के हिंदी पाठ के क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 10 पर दर्शाए गए नामों को “श्री अंजन रेड्डी कसिरेड्डी”, “श्री रूपेन्द्र सिंह”, “श्री साई कार्तिक नौडूरु”, “कुमारी पूजा साहू”, “श्री प्रथमेश विजय ठकार” के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है।

वी पद्मनाभन
मुख्य प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

शुद्धिपत्र

पीडी/8(6)/2013/भर्ती-IV/3274—इस अनुसंधान केंद्र के दिनांक 29 दिसंबर, 2014 के समसंख्यक राजपत्रित अधिसूचना संख्या 170297 के हिंदी पाठ के क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गए नाम को “गौरव महेन्द्र पटेल” के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है।

वी पद्मनाभन
मुख्य प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद)

मुंबई-400 094, दिनांक 25 मार्च 2015

सं. : एईआरबी/प्रशा/1/77/1047—राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने उल्लिखित पदोन्नति पर तथा वेतनमान में दिनांक 10/03/2015 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं: —

क्र.सं	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का ग्रेड	वेतन बैंड
1.	श्री पट्टामडाई रामास्वामियर कृष्णमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी (एच ⁺)	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	एचएजी स्केल: रु. 67000- 3% - रु. 79000/-
2.	श्री विनय विभूषण पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	पीबी-4: रु. 37000-67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000
3.	डा. अविनाश उध्दव सोनवणे, वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	पीबी-4: रु. 37000-67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000

संगीता आर नाखवा
प्रशासनिक अधिकारी-III

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 17 मार्च 2015

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2348)/2015-भर्ती/232—निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री ओमप्रकाश, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी), भापअकेंद्र, मुंबई को दिनांक 23/2/2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस निदेशालय में वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800/- और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. जगन मोहन राव

प्रशासन अधिकारी—III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500 016, दिनांक 23 मार्च 2015

निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री टी.वी.ए.एल. प्रसाद, सहायक कार्मिक अधिकारी, (पीबी-2: रु. 9,300—34,800/-+ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) को कर्मचारी संबंध अधिकारी (पीबी-2: रु. 9,300—34,800/-+ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), के रूप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में अगले आदेशों तक अस्थाई तौर पर दिनांक 04.03.2015 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव

मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 24 मार्च 2015

कम्पनी अधिनियम 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

सं. क.र./प.ब./560/एफटीई/2015/5809—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 52 कम्पनियों के नाम आज के दिन रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र. स.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
1	U74900WB2013PTC193949	सेमकीट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U01222WB2007PTC118047	डेनी पिग्गेरी फार्म एंड मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	U51909WB2011PTC163236	गोल्डस्मिथ ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB2011PTC163242	रामराज्य विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
5	U72300WB2012PTC186198	स्यमनाटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
6	U51109WB1995PTC070581	हरदीप सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U70109WB2007PTC119136	ओरिओन टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U85110WB2004PTC098794	एअनके मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
9	U51433WB1992PTC055243	जेवीएस ट्यूब बैंड प्राइवेट लिमिटेड
10	U52100WB2011PTC157183	आरडीएस ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
11	U65993WB1994PTC065365	बीकेबी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
12	U26999WB2011PTC161004	बैंथोस एक्वा प्राइवेट लिमिटेड

क्र. स.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
13	U85110WB1992PTC056753	राय लेजरस्कोप रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
14	U70109WB2012PTC185958	एवरराइज़ रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U70109WB2012PTC185959	पवनशिव रियलकोण प्राइवेट लिमिटेड
16	U74900WB2011PTC158518	एसआर मेडिसाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U51109WB2006PTC111662	हिलसन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U27100WB2009PTC133719	एपीबी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
19	U51909WB2011PTC168452	साई वेडा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
20	U45200WB2007PTC113243	हैप्पी अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U45200WB2007PTC113199	हैप्पी भवन प्राइवेट लिमिटेड
22	U72900WB2001PTC093140	हैप्पी ई सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
23	U45209WB2009PTC134784	हैप्पी हाउस प्राइवेट लिमिटेड
24	U51109WB1995PTC072627	हैप्पी एसजीबीएल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U51909WB1995PTC072722	लेमनएड मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
26	U72200WB2006PTC108692	कस्तुरी कंवर्जेंस प्राइवेट लिमिटेड
27	U22212WB2011PTC166532	एस समद केम प्राइवेट लिमिटेड
28	U74994WB2001PTC093860	हैप्पी फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U51909WB1998PTC086561	पीएमबी इम्पेक्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U51909WB1994PTC066505	आक्रोन डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U65999WB1995PTC075221	एकूई इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
32	U70101WB1995PTC074625	अनामिका प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U15124WB1995PLC067615	पोर्ट ब्लेयर एक्वा लिमिटेड
34	U51909WB1995PTC074879	एम्स मर्केडाइस प्राइवेट लिमिटेड
35	U45400WB2012PTC184590	अल-हल जे. के. बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
36	U64200WB2008PTC127789	मेबिली-टी कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U74120WB1992PTC054684	प्रोम्पट एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
38	U74999WB2011PTC170519	जमीर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	U74999WB2012PTC185055	डीई मेरीलायन फार्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड
40	U29219WB2002PTC094845	आई सी टी इन्स्ट्रुमेंट प्राइवेट लिमिटेड
41	U51909WB2012PTC183341	विधाता प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U45201WB1979PTC032071	मुखर्जी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
43	U15411WB2010PTC155838	तुलस्यान कंफेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
44	U70102WB2010PTC143391	एआरवाई रियलटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
45	U51909WB2013PTC196006	सुध इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U74999WB2011PTC165210	रॉयलब्लू एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
47	U74999WB2011PTC158084	तुलस्यान इंवेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U74140WB2011PTC158051	तुलस्यान मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U74999WB2011PTC160708	तुलस्यन विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
50	U74900WB2011PTC158052	तुलस्यान मर्चेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U45309WB2011PTC165759	तोपसिया ऑफिसेस प्राइवेट लिमिटेड
52	U45201WB1989PTC045935	सोलेस इंजीनियर्स (मनुफैक्चरिंग) प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू—180012, दिनांक 23 मार्च 2015

सं: आरओसी/जम्मू/560(5)/एफ.टी.ई.—2014—15—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये गये हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने के तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी।

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	यु64202जेके2005पीटीसी002489	मैसर्ज खाइबर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	यु26993जेके1986पीटीसी000873	मैसर्ज कश्मीर मार्बल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलुरु, दिनांक 18 मार्च 2015

सं: आरओसी/560(5)/एफ.टी.ई./नोटिस—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं।

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
1	U74900KA2011PTC058010	इयूप्लेक्स डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
2	U64203KA2008PTC048173	डैमेशन टेली नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
3	U45205KA2011PTC058294	गौंडेर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	U85110KA1996PLC021430	श्री अनंतनगर फाइन होम्स लिमिटेड
5	U72200KA2008PTC047255	होपनटेक्निका आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	U72200KA2014PTC072806	मेदियालयौत (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7	U52335KA1992PTC012773	अरोरा बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
8	U52600KA2011PTC060495	बैईसी रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
9	U74210KA2009PTC049232	शेल्डरेक इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
10	U72900KA2011PTC059051	लोटस आंतम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U40108KA2011PTC057527	चालुक्या ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
12	U92190KA2007PTC042750	एसपॉड कॉर्पोरेट सर्विसेज एण्ड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U74140KA2009PTC051488	इन्वैट कनसल्टिंग एण्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U51900KA2010PTC055271	टेक फ्रूट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	U65992KA2010PTC054825	श्री हनुमागिरि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U45209KA1985PTC007059	सत्प्रजा पक्षाना सेवा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U67190KA2007PTC043647	एस सी ए कोर होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	U06599KA1988PTC008859	एस.एन.एस. इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U30007KA1984PTC006162	ईको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड.
20	U74140KA2005PTC035411	टी-लॉजिक ट्रेनिंग एण्ड कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	U66010KA2002PTC031080	सुजै इन्सुरेन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22	U18101KA2007PTC041506	संजुला क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U72900KA2012PTC066952	डुबिडॉक्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200KA2010PTC052223	उपवेदा लेनिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U32109KA2006PTC038426	कोड रेड इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सेक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U85110KA1993PLC014056	मंगलूर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
27	U67190KA2010PTC053500	सरगौड़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
28	U65923KA2012PTC066001	क्लौस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U93000KA2013PTC072559	क्रिधा मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
30	U80302KA2006PTC038297	इन्कोर कॉर्पोरेट एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
31	U74999KA2006PTC040035	ब्योडिजल एनर्जी फार्म्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
32	U18109KA2008PTC048711	आइडेंटिटी अप्पेरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U27109KA2006PTC041240	एक्सट्रीम कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U74999KA2005PTC037017	हॉट लैन मॅटेनेन्स एण्ड सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
35	U74900KA2013PTC067931	बेक पिल्लर बेक ऑफिस सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
36	U74900KA2013PTC067989	बैंक ऑफिस स्ट्रीट एच आर सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
37	U74999KA2009PTC050563	टेराक्योटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U74900KA2013PTC071367	टेकटोन टेक्नोलॉजिकल सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
39	U72200KA2013PTC072386	हेल्लोपिप्पेल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U30007KA1995PTC017787	अक्टो इन्फर्मेशन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
41	U45202KA2011PTC058526	इस्कोयर इन्प्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
42	U51505KA2005PTC036229	कन्ज्यूमर वेल्यू स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U45205KA2012PTC064627	हरि ओम रेसिडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
44	U13201KA2007PTC042716	निज़ारा ऐमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U72200KA2012FTC062890	इम्प्रीक्स सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
46	U74900KA2011PTC060262	नीयूट मैनेजमेंट कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
47	U74900KA2008PTC047617	टोटल कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
48	U51909KA2009PTC051685	इन्फिनिटी इन्फोनेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
49	U74140KA2006PTC039514	सर्वीक कन्सलटेन्सी सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
50	U72200KA2010PTC054627	इम्4एस बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U45205KA2013PTC072038	सूर्यभूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U72200KA2004PTC035270	एएफसी सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
53	U45201KA2010PTC052503	विविड इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U74210KA2006PTC039220	एचएमएस् सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U24232KA2012PTC064099	आर ज्द फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड
56	U74900KA2012PTC064086	आर ज्द एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
57	U72200KA2012PTC064553	एक्सकोजिटेड डेस्सॉल प्राइवेट लिमिटेड
58	U74999KA2011PTC058210	गीना ज्वेलरी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
59	U50102KA2008PTC048446	लोटस आटोमेक प्राइवेट लिमिटेड
60	U74140KA2010PTC055559	जॉबियंट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
61	U01119KA2009PTC050593	बेंगलूरु हैवे टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U01131KA2009PTC050622	चाय अप्परक्रिस्ट प्लॉनटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
63	U74900KA2009PTC050446	एफएमआईए मार्केटिंग सर्वीसेज प्राइवेट लिमिटेड
64	U01131KA2009PTC050623	हसारु बॉली टी प्लॉनटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
65	U01132KA2009PTC050627	उट्टी हिलरेंज टी एण्ड अलैइड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U01132KA2009PTC050587	रोशनी चाय एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U72200KA2010PTC055681	बिज़बस इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
68	U63090KA2005PTC038123	मेक्स इन्टरमोडल सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
69	U72200KA2013PTC070405	स्पाटियोविज ज्यो इनफॉरमाटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U22219KA2008PTC045187	ग्लोबल विल्लेज पब्लिकेशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
71	U28112KA2011PTC059182	कॉर्पोरेट फ़ैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U72200KA2006PTC041110	सुर्वेग टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
73	U24230KA2008PTC048658	आक्सिस लैफ़केर प्राइवेट लिमिटेड
74	U72200KA2011PTC058176	इन्नोब्रिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
75	U67190KA2010PTC053086	ग्रेवेल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U01400KA2013PTC072706	ग्रो-हार्गवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U40101KA2010PTC053529	प्रोटोनिक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
78	U74900KA2013PTC071558	कॉजिटोटस कनसल्टिंग एण्ड टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
79	U27106KA2008PTC044980	चौदना इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
80	U27106KA2008PTC046876	रामचंद्रा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U74999KA2006PTC040069	ग्लोबल नर्सिंग सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82	U32304KA2009PTC050372	एम. आर. टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड
83	U45205KA2011PTC061455	बीबीआर बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड
84	U24110KA2008PTC046065	कारवण टेक्निकल सर्वीसेज प्राइवेट लिमिटेड
85	U72200KA2013PTC070374	स्माशकार ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
86	U70200KA2011PTC058850	हेड एण्ड हार्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U01122KA2003PTC031722	निक्करसन—ज्वॉन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
88	U74999KA2011PTC056729	कोच्चिवैब वेब एण्ड इवेंट्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U72200KA2013PTC069754	डुटाडु टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
90	U52100KA2010PTC056212	रीटेलस्पार्क रीटेल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
91	U73100KA2011PTC059111	समिक्षु रिसर्च लाब्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U45201KA2007PTC043085	ली वे प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U70100KA2013PTC070109	बीओआई प्रॉपर्टीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
94	U32109KA2006PTC038824	कॉन्टेक सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
95	U01403KA2011PTC058966	डी एण्ड जे डेयरी प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U72900KA2011PTC060619	कॉरेस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
97	U72200KA2008PTC047519	इकोलि लॉमार्क कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड
98	U72200KA2011PTC058967	एनएसआई सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
99	U74300KA2007PTC042562	पीएससार ब्रांड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
100	U72200KA2009PTC051038	प्रेमिडिया प्रिंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U51909KA2013PTC070802	शापिवे ईकामर्स प्राइवेट लिमिटेड
102	U41000KA2013PTC069083	एनसर्गिल अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
103	U70102KA2011PTC061517	टपोनिधि डेवेलपर्स एण्ड कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
104	U92111KA2007PTC043217	एशिया नेट न्यूज एण्ड एंटरप्राइजेज (नॉर्थ) प्राइवेट लिमिटेड
105	U45200KA2011PTC061680	भवदारिणी डेवेलपर्स एण्ड कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U01409KA2011PTC057427	एन. आर. प्लानटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
107	U74900KA2012PTC062207	इस्सले क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U92140KA2008PTC047609	पाब्लो आर्ट अण्ड गल्लेरी प्राइवेट लिमिटेड
109	U74910KA2005PTC037910	ओज़ोन कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
110	U92412KA2011PTC057785	केजीएफ स्पोर्ट्स अकॉडमी प्राइवेट लिमिटेड
111	U72900KA2009PTC051185	मार्केटप्लेन टेक्नॉलाजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
112	U55101KA2003PTC032480	सूर्यसमुद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड
113	U36990KA2011PTC058525	लेवोमेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
114	U67190KA2010PTC053827	ओपीजी होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U45201KA2007PTC043031	ट्रिनिटी अरसेंड प्राइवेट लिमिटेड
116	U18101KA2010PTC055784	डेनिजेन क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	U74994KA2012PTC066445	प्रोटोज़ डिजेइन एण्ड डेवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
118	U25203KA2012PTC063541	एसएफएमसी एक्सट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	सी. आई. एन.	कंपनी का नाम
119	U72200KA2013PTC068344	वोरियॉन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
120	U45201KA2009PTC051412	एमएसएन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U55101KA2006PTC040157	रॉव टेरा हॉस्पिटैलिटी एण्ड सर्वीसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
122	U45202KA2006PTC040719	प्रकृति नेस्ट प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड

सत्यजीत राउल
सह. रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 26th March 2015

No. 22/Cal/2014/SCA(Genl.)—In pursuance of sub-rule (3) of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, the Hon'ble Chief Justice of India has directed that the Supreme Court of India and its Registry shall remain closed on Tuesday, the 14th April, 2015 on account of the birthday of Dr. B. R. Ambedkar.

RAJ PAL ARORA
Registrar (Admn. Genl.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 17th March 2015

No. DPPERS.I2015/0071/A-20011/1/84—Shri Dinesh Kumar Saxena, Deputy Legal Advisor, CBI, Lucknow Zone, Lucknow has relinquished the charge of the post of Deputy Legal Advisor with effect from the afternoon of 28.02.2015 on attaining the age of superannuation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi-110003, the 19th March 2015

No. DFSS/4/82/2012/3257—The President is pleased to appoint Shri Sanjeet Kumar as the Senior Scientific Officer Grade – II (Explosives) (re-designated under Flexible Complementing Scheme as Scientist – B (Explosives)), Central Forensic Science Laboratory, Kolkata under the Directorate of Forensic Science Services in pay band PB-3 (Rs. 15,600–39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 16.12.2014 (AN).

A. K. GANJOO
Director – cum – Chief Forensic Scientist

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 20th March 2015

No. O.II-4014/2015-Pers(MOs)— The President is pleased to appoint Dr. Kuhu Chatterjee, selected candidate of MOSB-2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600–39,100/- plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 12-03-2015(AN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 24th March 2015

No. E-16015/NSG/2012/Pers-II/375—Consequent upon appointment of following Assistant Commandant/Exes, CISF in National Security Guard (Ministry of Home Affairs), on deputation basis, for a period of five years, have relinquished the charge from CISF and assumed the charge of the posts at NSG from the date/post as mentioned against their name :—

Sl.No.	Name of the Officer/Rank (Shri)	Date of relinquish the charge/Unit	Date of assumed the charge in NSG & Rank
01.	Alan Zozarlien, AC/Exe	28.12.14 (AN) Gua Ore Mines	27.01.15 (FN) Team Comdr.
02.	Thachung Hnung, AC/Exe	07.11.2014 (AN) IGI Airport, New Delhi	18.11.14 (FN) Team Comdr.

Sl.No.	Name of the Officer/Rank (Shri)	Date of relinquish the charge/Unit	Date of assumed the charge in NSG & Rank
03	Saurav Joshi, AC/Exe	16.01.15 (AN) CPCL Manali (TN)	02.02.15 (FN) Team Comdr.
04	Shekhar Ramola, AC/Exe	28.02.15 (AN) BIM Tensa Mines	11.03.15 (FN) Team Comdr.

Sd/- ILLEGIBLE
DIRECTOR GENERAL/CISF

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
Nagpur, the 23rd March 2015

No. A-19011/651/2014-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Dillip Ranjan Kanungo, to the post of Superintending Officer (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 13.3.2015 (F/N).

NOEL DAHANGA
Administrative Officer
for Controller General

The 27th March 2015

No. A-19011/382/2014-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Dr. M. K. Somani, Senior Mining Geologist, is promoted to the post of Regional Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f. 18.12.2014 (A.N.).

N. DAHANGA
Administrative Officer
for Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
Kolkata-16

No. A-32013/1-Geol./2014-15/19A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri A.C. Bansod, Assistant Geologist, Geological Survey of India on promotion to the post of Geologist in the same department for the year 2014-15 and on pay according to rules in the Pay Band -3 (Rs. 15,600–39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.04.2004(F/N) on regular basis until further orders.

H. M. MISHRA
Dy. Director(P&A)
for Director General

CORRIGENDUM

No. A-32013/1-Geol./2014-15/19A—In continuation to this office Notification No. 4053sp to 4056sp/A-32013/1- Geol./2014-15/19A, dated 24th June, 2014 the date of promotion in respect of Shri A. C. Bansod Assistant Geologist to Geologist, may be read as 01.04.2014 (F/N) instead of 01.04.2004 (F/N). Other terms and conditions remain unchanged.

A. K. MONDAL
Administrative Officer
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
Mumbai-400 085, the 25 March 2015

C O R R I G E N D U M

No. PD/8(6)/2013/R-IV/3274—The name shown at serial No. 3 in the Hindi Version of this Research Centre's Gazette Notification of even number 170297 dated December 29, 2014, is corrected to read as “ Gaurav Mahendra Patel ”.

V PADMANABHAN
Chief Administrative Officer (P)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400 085, the 25th March 2015

No. AERB/Adm/I/77/1047—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade shown against each in the same Board with effect from the forenoon of 10.03.2015 until further orders.

Sl. No.	Name of the Officer & Designation	Grade of Promotion	Pay Band (₹)
1.	Shri Pattamadaï Ramaswamier Krishnamurthy, Scientific Officer (H ⁺)	Outstanding Scientist	HAG Scale: ₹ 67,000- 3% - ₹ 79,000/-
2.	Shri Vinay Vibhushan Pande, Scientific Officer (G)	Scientific Officer (H)	PB-4: ₹ 37,400–67,000/- + Grade Pay ₹ 10000/-
3.	Dr. Avinash Uddhav Sonawane, Scientific Officer (G)	Scientific Officer (H)	PB-4: ₹ 37,400–67,000/- + Grade Pay ₹ 10000/-

SANGEETA R. NAKHWA
Administrative Officer – III

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 17th March 2015

No. DCSEM/A/3(2348)/2015-Rectt./232—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Shri Omprakash, Assistant Security Officer(B), BARC, Mumbai as Security Officer in this Directorate in the Pay Band-2 Rs. 9,300–34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 23/02/2015 until further orders.

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 23rd March 2015

No. AMD-1/20/1994-Rectt/590—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri T.V.A.L. Prasad, Assistant Personnel Officer (PB-2, ₹ 9,300–34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-), Heavy Water Plant (Manuguru) to officiate as Staff Relations Officer (PB-2, ₹ 9,300–34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-), in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad with effect from the forenoon of 04.03.2015 until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES
OFFICE MEMORANDUM

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 24th March 2015

No. ROC/WB/FTE/560/2015—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 52 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U74900WB2013PTC193949	SAMEKIT IMPEX PRIVATE LIMITED
2	U01222WB2007PTC118047	DENI PIGGERY FARM AND MEAT PROCESSING PLANT PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
3	U51909WB2011PTC163236	GOLDSMITH TRADELINK PRIVATE LIMITED
4	U51909WB2011PTC163242	RAMRAJYA VINIMAY PRIVATE LIMITED
5	U72300WB2012PTC186198	SYMNATECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
6	U51109WB1995PTC070581	HARDEEP SUPPLIERS PVT. LTD..
7	U70109WB2007PTC119136	ORION TOWERS PRIVATE LIMITED
8	U85110WB2004PTC098794	EANKEY MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
9	U51433WB1992PTC055243	JVS TUBE BEND PVT. LTD.
10	U52100WB2011PTC157183	RDS TRADECOM PRIVATE LIMITED
11	U65993WB1994PTC065365	BKB AGENCIES PRIVATE LIMITED
12	U26999WB2011PTC161004	BENTHOS AQUA PRIVATE LIMITED
13	U85110WB1992PTC056753	RAY LASERSKOPE RESEARCH AND TRAINING CENTRE (I) PVT. LTD.
14	U70109WB2012PTC185958	EVERRISE REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
15	U70109WB2012PTC185959	PAWANSHIV REALCON PRIVATE LIMITED
16	U74900WB2011PTC158518	SR MEDISCIENCE PRIVATE LIMITED
17	U51109WB2006PTC111662	HILSON TRADES PRIVATE LIMITED
18	U27100WB2009PTC133719	APB COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
19	U51909WB2011PTC168452	SAI VEDA EXIM PRIVATE LIMITED
20	U45200WB2007PTC113243	HAPPY APARTMENTS PRIVATE LIMITED
21	U45200WB2007PTC113199	HAPPY BHAWAN PRIVATE LIMITED
22	U72900WB2001PTC093140	HAPPY E SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U45209WB2009PTC134784	HAPPY HOUSE PRIVATE LIMITED
24	U51109WB1995PTC072627	HAPPY SGBL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
25	U51909WB1995PTC072722	LEMONADE MERCANTILE PVT. LTD.
26	U72200WB2006PTC108692	KASTURI CONVERGENCE PVT. LTD.
27	U22212WB2011PTC166532	AS SAMAD CHEM PRIVATE LIMITED
28	U74994WB2001PTC093860	HAPPY FASHIONS PRIVATE LIMITED
29	U51909WB1998PTC086561	PMB IMPEX & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
30	U51909WB1994PTC066505	AKRON DEALERS PVT. LTD.
31	U65999WB1995PTC075221	EQUI INVEST PVT. LTD.
32	U70101WB1995PTC074625	ANAMICA PROMOTERS PVT.LTD
33	U15124WB1995PLC067615	PORT BLAIR AQUA LTD.
34	U51909WB1995PTC074879	AIMS MERCANDISE PVT. LTD.
35	U45400WB2012PTC184590	AL-HAJ J. K. BUILDER INDIA PRIVATE LIMITED
36	U64200WB2008PTC127789	MOBIL-T COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
37	U74120WB1992PTC054684	PROMPT ADVISORY SERVICES PVT. LTD.
38	U74999WB2011PTC170519	JAMIR EXPORT INDIA PRIVATE LIMITED
39	U74999WB2012PTC185055	DE MERILION FORMULATION PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
40	U29219WB2002PTC094845	I C T INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
41	U51909WB2012PTC183341	VIDHATA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
42	U45201WB1979PTC032071	MUKHERJEE CONSTRUCTION PVT. LTD.
43	U15411WB2010PTC155838	TULSYAN CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
44	U70102WB2010PTC143391	ARY REALTY SERVICES PRIVATE LIMITED
45	U51909WB2013PTC196006	SUDH IMPEX PRIVATE LIMITED
46	U74999WB2011PTC165210	ROYALBLUE AGENCY PRIVATE LIMITED
47	U74999WB2011PTC158084	TULSYAN INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
48	U74140WB2011PTC158051	TULSYAN MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
49	U74999WB2011PTC160708	TULSYAN VINIMAY PRIVATE LIMITED
50	U74900WB2011PTC158052	TULSYAN MERCHANTS PRIVATE LIMITED
51	U45309WB2011PTC165759	TOPSIA OFFICES PRIVATE LIMITED
52	U45201WB1989PTC045935	SOLACE ENGINEERS (MANUFACTURING) PVT. LTD.

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jammu-180012, the 23rd March 2015

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014-15—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	U64202JK2005PTC002489	M/s Khyber Infotech Private Limited
2.	U26993JK1986PTC000873	M/s Kashmir Marble Industries Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

Bangalore, the 18th March 2015

NO. ROC/560/(5) FTE—NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF THE UNDER MENTIONED COMPANY HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANY STAND DISSOLVED :—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1.	U74900KA2011PTC058010	DUPLEX Devices Private Limited
2.	U64203KA2008PTC048173	DIMENSIONS TELE NETWORKS PRIVATE LIMITED
3.	U45205KA2011PTC058294	GOUNDER INFRATECH PRIVATE LIMITED
4.	U85110KA1996PLC021430	SHREE ANANTHNAGAR FINE HOMES LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
5.	U72200KA2008PTC047255	OpenTekhnia IT Services Private Limited
6.	U72200KA2014PTC072806	Medialayout (India) Private Limited
7.	U52335KA1992PTC012773	ARORA BUSINESS CENTRE PRIVATE LIMITED
8.	U52600KA2011PTC060495	BUYEASY RETAIL PRIVATE LIMITED
9.	U74210KA2009PTC049232	SHELDRAKE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
10.	U72900KA2011PTC059051	Lotus Anthem Solutions Private Limited
11.	U40108KA2011PTC057527	CHALUKYA GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
12.	U92190KA2007PTC042750	ACESPADE CORPORATE SERVICES AND EVENTS PRIVATE LIMITED
13.	U74140KA2009PTC051488	INWITE CONSULTING AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
14.	U51900KA2010PTC055271	TechFruit Marketing Private Limited
15.	U65992KA2010PTC054825	SRI HANUMAGIRI CHITS PRIVATE LIMITED
16.	U45209KA1985PTC007059	SATHPRAJA PAKSHANA SEVA HOUSING PRIVATE LIMITED
17.	U67190KA2007PTC043647	S C A CORE HOLDINGS INDIA PRIVATE LIMITED
18.	U06599KA1988PTC008859	S.N.S. INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
19.	U30007KA1984PTC006162	EIKO SALES PRIVATE LIMITED.
20.	U74140KA2005PTC035411	T-LOGIC TRAINING AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
21.	U66010KA2002PTC031080	SUJAY INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
22.	U18101KA2007PTC041506	SANJULA CREATIONS PRIVATE LIMITED
23.	U72900KA2012PTC066952	Dobydox Solutions Private Limited
24.	U72200KA2010PTC052223	Upaveda Learning Solutions Private Limited
25.	U32109KA2006PTC038426	Code Red Electronics AND Security Systems Private Limited
26.	U85110KA1993PLC014056	MANGALORE ELECTRICALS LIMITED
27.	U67190KA2010PTC053500	SARGOD TRADING PRIVATE LIMITED
28.	U65923KA2012PTC066001	KLAUS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
29.	U93000KA2013PTC072559	KRIDHA MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
30.	U80302KA2006PTC038297	InCore Corporate Education India Private Limited
31.	U74999KA2006PTC040035	BioDzI Energy Farms (India) Private Limited
32.	U18109KA2008PTC048711	IDENTITY APPARELS PRIVATE LIMITED
33.	U27109KA2006PTC041240	XTREME CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
34.	U74999KA2005PTC037017	HOT LINE MAINTENANCE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
35.	U74900KA2013PTC067931	Base Pillar Back Office Services Private Limited
36.	U74900KA2013PTC067989	Back Office Street HR Services Private Limited
37.	U74999KA2009PTC050563	TerraQuota Systems Private Limited
38.	U74900KA2013PTC071367	TAKTON TECHNOLOGICAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
39.	U72200KA2013PTC072386	Hellopeople Networks Private Limited
40.	U30007KA1995PTC017787	ACTO INFORMATION SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
41.	U45202KA2011PTC058526	ESQUIRE INFRATECH PRIVATE LIMITED
42.	U51505KA2005PTC036229	CONSUMER VALUE STORES PRIVATE LIMITED
43.	U45205KA2012PTC064627	HARI OM RESIDENCY PRIVATE LIMITED
44.	U13201KA2007PTC042716	NIZARA IMEX PRIVATE LIMITED
45.	U72200KA2012FTC062890	Empirix Solutions India Private Limited
46.	U74900KA2011PTC060262	NIYUT MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
47.	U74900KA2008PTC047617	TOTAL CORPORATE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
48.	U51909KA2009PTC051685	INFINITY INFONET (INDIA) PRIVATE LIMITED
49.	U74140KA2006PTC039514	SARVIK CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
50.	U72200KA2010PTC054627	IM4S BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
51.	U45205KA2013PTC072038	SURYABHOOMI infrastructures private limited
52.	U72200KA2004PTC035270	AFC Software Technologies Private Limited
53.	U45201KA2010PTC052503	VIVID INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
54.	U74210KA2006PTC039220	HMS Systems Private Limited
55.	U24232KA2012PTC064099	R Z PHARMACY PRIVATE LIMITED
56.	U74900KA2012PTC064086	R Z ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
57.	U72200KA2012PTC064553	Excogitate Dessol Private Limited
58.	U74999KA2011PTC058210	SheynaJewellery Trading Company Private Limited
59.	U50102KA2008PTC048446	LOTUS AUTOMECH PRIVATE LIMITED
60.	U74140KA2010PTC055559	JOBIANT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
61.	U01119KA2009PTC050593	BANGALORE HIGHWAY TEA ESTATES PRIVATE LIMITED
62.	U01131KA2009PTC050622	CHAI UPPERCREST PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
63.	U74900KA2009PTC050446	FMIA Marketing Services Private Limited
64.	U01131KA2009PTC050623	HASARU VALLEY TEA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
65.	U01132KA2009PTC050627	OOTY HILLRANGE TEA AND ALLIED ESTATES PRIVATE LIMITED
66.	U01132KA2009PTC050587	ROSHNI CHAI ESTATES PRIVATE LIMITED
67.	U72200KA2010PTC055681	BIZBUZ INFO MEDIA PRIVATE LIMITED
68.	U63090KA2005PTC038123	MAXX INTERMODAL SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED.
69.	U72200KA2013PTC070405	SpatioViz Geo Informatics Private Limited
70.	U22219KA2008PTC045187	GLOBAL VILLAGE PUBLICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
71.	U28112KA2011PTC059182	CORPORATE FABRICATORS PRIVATE LIMITED
72.	U72200KA2006PTC041110	SUVENG TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
73.	U24230KA2008PTC048658	AXIS LIFECARE PRIVATE LIMITED
74.	U72200KA2011PTC058176	INNOBRIK SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
75.	U67190KA2010PTC053086	GROWELL HOLDINGS PRIVATE LIMITED
76.	U01400KA2013PTC072706	GRO-ORG VENTURES PRIVATE LIMITED
77.	U40101KA2010PTC053529	Protronix Energy Private Limited
78.	U74900KA2013PTC071558	COGITATUS CONSULTING & TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
79.	U27106KA2008PTC044980	CHANDANA ISPAT PRIVATE LIMITED
80.	U27106KA2008PTC046876	RAMACHANDRA STEELS PRIVATE LIMITED
81.	U74999KA2006PTC040069	GLOBAL NURSING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
82.	U32304KA2009PTC050372	M R TELECOM PRIVATE LIMITED
83.	U45205KA2011PTC061455	BBR BUILD TECH PRIVATE LIMITED
84.	U24110KA2008PTC046065	CARAVAN TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
85.	U72200KA2013PTC070374	SMASHKAR ONLINE MEDIA PRIVATE LIMITED
86.	U70200KA2011PTC058850	HEAD AND HEART HOLDINGS PRIVATE LIMITED
87.	U01122KA2003PTC031722	NICKERSON-ZWAAN SEEDS PRIVATE LIMITED
88.	U74999KA2011PTC056729	KOCHIVIBE Web And Events Solutions Private Limited
89.	U72200KA2013PTC069754	DODAADO TECHVENTURES PRIVATE LIMITED
90.	U52100KA2010PTC056212	RetailSpark Retail Consulting Private Limited
91.	U73100KA2011PTC059111	Samikshu Research Labs Private Limited
92.	U45201KA2007PTC043085	LEE WAY PROJECTS PRIVATE LIMITED
93.	U70100KA2013PTC070109	BOI PROPERTIES INDIA PRIVATE LIMITED
94.	U32109KA2006PTC038824	COMTEK SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
95.	U01403KA2011PTC058966	D&J Dairy Products Private Limited
96.	U72900KA2011PTC060619	Caerus Technologies Private Limited
97.	U72200KA2008PTC047519	ECOLE LAMARK COMPUTING PRIVATE LIMITED
98.	U72200KA2011PTC058967	NSI Software India Private Limited
99.	U74300KA2007PTC042562	PSR BRAND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
100.	U72200KA2009PTC051038	PRIMEDIA PRINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
101.	U51909KA2013PTC070802	ShopewayCommerce Private Limited
102.	U41000KA2013PTC069083	ENCIRCLE AQUA PRIVATE LIMITED
103.	U70102KA2011PTC061517	Taponidhi Developers & Consultants Private Limited
104.	U92111KA2007PTC043217	Asianet News & Entertainment (North) Private Limited
105.	U45200KA2011PTC061680	Bhavatarini Developers & Consultants Private Limited
106.	U01409KA2011PTC057427	N.R. PLANATIONS PRIVATE LIMITED
107.	U74900KA2012PTC062207	EASEL CREATIONS PRIVATE LIMITED
108.	U92140KA2008PTC047609	PABLO ART AND GALLERIE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
109.	U74910KA2005PTC037910	OZONE CONSULTING PRIVATE LIMITED
110.	U92412KA2011PTC057785	KGF Sports Academy Private Limited
111.	U72900KA2009PTC051185	MarketPlane Technologies (India) Private Limited
112.	U55101KA2003PTC032480	SURYASAMUDRA HOLIDAY RESORTS (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED
113.	U36990KA2011PTC058525	LevoMed (India) Private Limited
114.	U67190KA2010PTC053827	OPG HOLDINGS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
115.	U45201KA2007PTC043031	TRINITY ASCEND PRIVATE LIMITED
116.	U18101KA2010PTC055784	DENIZEN CLOTHING PRIVATE LIMITED
117.	U74994KA2012PTC066445	PROTOJ Design and Development Private Limited
118.	U25203KA2012PTC063541	SFMC Extrusions Private Limited
119.	U72200KA2013PTC068344	VOREIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
120.	U45201KA2009PTC051412	MSN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
121.	U55101KA2006PTC040157	RAV TERRA HOSPITALITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
122.	U45202KA2006PTC040719	Prakruti Nest Properties Private Limited

SATYAJIT ROUL
ASSTT. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in